



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

29 फाल्गुन 1938 (श0)  
(सं0 पटना 208) पटना, सोमवार, 20 मार्च 2017

---

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचनाएं  
17 मार्च 2017

**बिहार नगरपालिका सम्पत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) संशोधन नियमावली, 2017**

सं0 5न0वि0/विविध-202/16-2061—बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-127 (3) एवं धारा-419 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल बिहार नगरपालिका सम्पत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली, 2013 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

**1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।-** (1) यह नियमावली बिहार नगरपालिका सम्पत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) (संशोधन) नियमावली, 2017 कही जायेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण राज्य के नगरपालिका क्षेत्र में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

**2. उक्त नियमावली, 2013 के नियम-9 में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा।-**

“परन्तु नवगठित स्थानीय नगर निकायो की अधिकारिता के अधीन अवस्थित रिक्त भूमि पर, सम्पत्ति कर का निर्धारण, संग्रहण एवं वसूली, स्थानीय नगर निकाय के गठन के पश्चात, उक्त भूमि पर निर्माण कार्य होने तक, जिसकी अधिसीमा पाँच वर्षों तक होगी, नहीं की जायेगी।”

बिहार-सरकार के आदेश से,  
चैतन्य प्रसाद,  
प्रधान सचिव।

17 मार्च 2017

सं0 5न0वि0/विविध-202/16-2062/अधिसूचना सं0 5न0वि0/विविध-202/16-2061 का निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-सरकार के आदेश से,  
चैतन्य प्रसाद,  
प्रधान सचिव।

*The 17<sup>th</sup> March 2017*

No. 5N.Vi/vividh-202/16-2061/UD&HD—In exercise of the powers conferred by section 127 (3) and sub-section (1) of Section-419 of Bihar Municipal Act, 2007 the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to amend The Bihar Municipal Property Tax (Assessment, Collection and Recovery) Rules, 2013:-

**1. Short title, extent and commencement:-** (1) These rules may be called The Bihar Municipal Property Tax (Assessment, Collection and Recovery) (Amendment) Rules, 2017.

(2) It shall extend to the whole Municipal area of the State of Bihar.

(3) It shall come into force at once

**2. Following Proviso shall be added to Rule 9 of said Rules, 2013**

Provided that Assessment, Collection and Recovery of Property Tax on the vacant land situated under the jurisdiction of newly created Local Municipal Bodies shall not be made after constitution of Local Municipal Body, till construction on the said land, limit of which will be up to five years.”

By order of the Governor of Bihar,  
CHAITANYA PRASAD,  
*Principal Secretary.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 208-571+200-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>